

प्रेस नोट

दिनांक 21.10.2020

सराहनीय कार्य थाना जायस पुलिस

रूपये 12,000/ का ईनामिया अभियुक्त व एक अन्य सहित हत्या के अभियोग में वांछित कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.10.2020 को भरत उपाध्याय थानाध्यक्ष जायस मय हमराह द्वारा तलाश वांछित व देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक मोटरसाइकिल पर सवार मु0अ0सं0 271/20 धारा 364,302,201,34 भादवि में वांछित व रूपये 12,000/ का ईनामिया रईस उर्फ लल्लन पुत्र मो0 नवी नि0 पूरे अहलाद मजरे कूरा थाना मोहनगंज व अभियुक्त संजय पुत्र राम सजन नि0 ग्राम कूरा थाना मोहनगंज को मोहनगंज जायस बार्डर ग्राम गंगागढ़ के पास से समय करीब 05:45 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त रईस की लताशी से मृतक मकसूद के तीन फोटो पासपोर्ट साइज व अभियुक्त संजय की तलाशी से मृतक मकसूद का एक अदद पर्स बरामद हुआ । पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि सलीम के साथ मिलकर पैसों के लालच में मकसूद की चाकू व चापड़ से हत्या कर उसके शव को कुएं में फेक दिया था । अभियुक्त रईस के निशानदेही पर उसके घर के पीछे धान के खेत से एक अदद चापड़ (आलाकत्ल) बरामद हुआ । थाना जायस पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. रईस उर्फ लल्लन पुत्र मो0 नवी नि0 पूरे अहलाद मजरे कूरा थाना मोहनगंज जनपद अमेठी । (ईनामिया)
2. संजय पुत्र राम सजन नि0 कूरा थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 271/20 धारा 364,302,201,34 भादवि थाना जायस जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

- 01 अदद पर्स व 04 अदद पासपोर्ट साइज फोटो (मृतक मकसूद)
- 01 अदद चापड़ (आलाकत्ल)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. भरत उपाध्याय थानाध्यक्ष जायस जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 बीएल रावत थाना जायस जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 विनय शंकर सिंह थाना जायस जनपद अमेठी ।
4. का0 दीपक यादव थाना जायस जनपद अमेठी ।
5. म0का0 माण्डवी सिंह गौर थाना जायस जनपद अमेठी ।
6. का0 अतुल यादव थाना जायस जनपद अमेठी ।
7. का0 नरेन्द्र यादव थाना जायस जनपद अमेठी ।